



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1944 (श10)
(सं० पटना 765) पटना, मंगलवार, 20 सितम्बर 2022

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
9 सितम्बर 2022

सं० नि०प्रा०/नि० 1-08/2021/1707—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-748 दिनांक 23.05.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड अंतर्गत भैसवाँ पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1011 दिनांक 20.06.2022 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन से पूर्व सूचना का प्रकाशन, नामांकन एवं संवीक्षा की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी।

अतः उक्त आलोक में भैसवाँ पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या-748 दिनांक 23.05.2022 के क्रम में स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत निर्धारित किया जाता है—

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	19.09.2022 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतदान, अगर आवश्यक हो	27.09.2022 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(iii)	मतगणना	27.09.2022 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iv)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	29.09.2022 (गुरुवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में भैसवों पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इस्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 15.09.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 29.09.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 748 दिनांक 23.05.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

आदेश से,
पुरुषोत्तम पासवान,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 765-571+50-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>